

# R-Defence, German firm tie up to make munitions

PRACHI PISAL  
Mumbai, 10 June

Anil Ambani's Reliance Defence (R-Defence) has tied up with Germany-based Diehl Defence to produce next-generation terminally guided munitions (TGM) for the Indian armed forces.

The partnership with Diehl will drive local production of the Vulcano 155 mm precision-guided munition system, R-Defence stated. As part of the agreement, R-Defence will establish a large, high-tech, greenfield, integrated ammunition and explosive manufacturing facility in Wadad Industrial Area in Ratnagiri, Maharashtra.

As the prime contractor to the Indian armed forces, R-Defence will lead the execution of this high-impact programme, with Diehl Defence, a globally recognised leader in guided munition technology, providing critical technology and system-level expertise, it



**Mega plans**

- R-Defence will establish a high-tech, greenfield, integrated ammunition and explosive plant in Maharashtra
- In May, the firm inked pact with another German company to make explosives and propellants
- Units for both projects to have an investment of ₹5,000 crore over the next five years
- Company plans to fund 30 per cent of the investment via equity and 70 per cent via debt

◀Reliance Group chairman Anil Ambani (left) with Helmut Rauch, CEO, Diehl Defence

PHOTO:PTI

said. "This strategic alliance not only accelerates the advancement of India's defence manufacturing capabilities, but also positions Reliance Defence as a pivotal player in the global defence supply chain," Ambani, founder and chairman of the Reliance Group, said.

In May, the company had tied up with another Germany-based defence firm, Rhein-

metall AG, to supply the explosives and propellants for medium- and large-calibre ammunition.

The facilities for the above-mentioned partnerships in Ratnagiri will be established with an investment of ₹5,000 crore over the next five years, a company source stated. R-Defence is aiming to start manufacturing in the next 18 months, as it has the land and

principal approvals for the plant in place.

The company aims to fund 30 per cent of the investment via equity and the other 70 per cent via debt. The equity is likely to come from the company's internal cash accruals, the source said. R-Defence aims to be amongst the country's top three private defence exporters in the next 12 to 24 months.

# ChatGPT services hit amid global outage

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, 10 June

OpenAI's ChatGPT experienced a major global outage on Tuesday, leaving thousands of users unable to access the service across multiple continents, with India and the United States reporting the highest number of disruptions.

According to the real-time monitoring platform Downdetector, user reports of ChatGPT outages surged rapidly around 3:00 PM, with about 800 complaints logged in India alone.

About 88 per cent of complaints from India cited the chatbot not responding to queries, 8 per cent reported issues with the mobile app, and 3 per cent faced API-related

problems. Users attempting to access ChatGPT encountered repeated error messages such as "Humm...something seems to have gone wrong" and "A network error occurred. Please check your connection and try again." The outage led to a flurry of activity on social media, with users sharing memes, voicing frustration, and highlighting the growing reliance on AI tools. OpenAI acknowledged the outage on its system status page, confirming that both ChatGPT and its text-to-video platform Sora were affected.

"Some users are experiencing elevated error rates and latency across the listed services. We are continuing to investigate this issue," OpenAI said.



# Capgemini to help Daiichi Life set up GCC in India

BS REPORTER  
Bengaluru, 10 June

Capgemini and Daiichi Life Holdings have signed a multi-year agreement to set up a global capability centre (GCC) in India to tap the local talent and support IT and digital strategies of the Japanese life insurer. This strategic collaboration with Capgemini will leverage a broad spectrum of the GCC's digital capabilities including advanced software development, infrastructure

modernisation, AI & data solutions, and robust cybersecurity measures. "By adopting a Build-Operate-Transfer model, we are not only accelerating our digital transformation but also laying the foundation for in-house expertise in critical areas such as AI, data, and cybersecurity," said Tetsuya Kikuta, President and CEO at Daiichi Life. Capgemini will bring its end-to-end capabilities at scale to enable Daiichi Life Group's transformation agenda.

## APPOINTMENTS

**MINERAL EXPLORATION AND CONSULTANCY LIMITED**  
Dr. Babasaheb Ambedkar Bhavan, Seminary Hills, Nagpur- 440006 (Maharashtra)  
**Phone:** (0712)-2510310 **CIN:** U13100MH1972GOI016078  
**E-Mail:** hod-hrd@mecl.co.in **Website:** www.mecl.co.in

Mineral Exploration And Consultancy Limited (MECL), A Miniratna-I CPSE, under the Ministry of Mines, Government of India, invites applications for **Recruitment For Various Non-Executive Posts in MECL**. For detailed advertisement, please visit at Career Section of our Corporate website at: **www.mecl.co.in**

Commencement of online registration for submitting applications is **14.06.2025** and the closing date is **05.07.2025**.

**Advt. No. 03/Rectt/2025**  
**Date: 03.06.2025** **General Manager (HR)**

**BARWA ADDA EXPRESSWAY LIMITED**  
The IL&FS Financial Center, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400051  
Tel.: +91 022-26533333, Facsimile: +91 022-26523979,  
E-mail: [procurement@roadstarinfra.com](mailto:procurement@roadstarinfra.com), Website: [www.roadstarinfra.com](http://www.roadstarinfra.com)  
CIN: U45400MH2013PLC242336

**BAEL/ADM/NEW/25-26/MMR/01** **June 11, 2025**

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

Barwa Adda Expressway Limited intends to invite tender for "Execution of Major Maintenance & Repair (MMR) and Resurfacing Works on 6-Lane NH-2 Expressway at Barwa-Adda-Panagarh Section from Km 398.240 to Km 521.120 including Panagarh Bypass in the states of Jharkhand & West Bengal"

The Bidder may participate as per the given BOQ subject to qualification in eligibility criteria.

Bid documents may be downloaded from the website [www.roadstarinfra.com](http://www.roadstarinfra.com) from June 11, 2025 (11:00 Hrs) to June 25, 2025 (11:00 Hrs). Bid must be submitted on or before June 25, 2025 (18:00 Hrs) to email id: [procurement@roadstarinfra.com](mailto:procurement@roadstarinfra.com) via soft copy mode as mentioned in RFP.

All the particulars and amendments related to this NIT can be viewed on the above said website. Interested agencies/firms may submit their bids as per eligibility criteria stated in the tender document. All the bids having in size can be submitted via link.

Authorized Signatory  
Barwa Adda Expressway Limited

**BOI**

**Head Office:** Inspection & Audit Department  
Star House – 2, 5<sup>th</sup> Floor, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 6131 9434, 6131 9408  
Website: [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) • email: [headoffice.ianda@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.ianda@bankofindia.co.in)

**TENDER NOTICE**

Bank of India invites open Request for Proposal (RFP) for "Engagement of CERT-In empanelled Information System (IS) Audit Service Provider for Conducting Risk Based Information System Audit of IT Systems and Processes at Data Centers & Head Office departments covering Bank's all IT applications/ Infrastructure at Data Centers and Head Office Departments". Last date for submission of bid is **01.07.2025 by 5:00 pm**. Full details are available on GeM Portal and on our Bank's Corporate Website: [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) under "Tender" Section. Amendments / Corrigendum, if any, will be kept on GeM & Bank's website only.

GeM Bid Ref No. - **GEM/2025/B/6320078**

Place: Mumbai  
Date : 06/06/2025

**Bank of India**  
Relationship beyond banking

**General Manager**  
**Inspection & Audit Department**

**www.bankofbaroda.in**

**बैंक ऑफ बड़ौदा**  
**Bank of Baroda**

**TENDER NOTICE**

Bank of Baroda invites proposal for the following:

S. No.	Tender Name	Last date of Submission	Website for Bid Submission
1.	Request for Qualification for Selection of Managed Service Provider for Management, Operations, Support, and Maintenance of DC, DRC and NDR IT Infrastructure for Bank of Baroda Sponsored RRBs for 5 Years	02.07.2025	<a href="https://bobbenders.eproc.in">https://bobbenders.eproc.in</a>
2.	Request for Proposal for Selection of Managed Services Provider for Management, Operations, Support, and Maintenance of Core Banking & Associated Applications for Bank sponsored RRBs for 5 years	02.07.2025	<a href="https://gem.gov.in/">https://gem.gov.in/</a>
3.	Request for Proposal for Selection of Service Provider for Procurement of Extended Life Cycle support for RHEL 7.9 for -01-year	21.06.2025	<a href="https://gem.gov.in/">https://gem.gov.in/</a>

Details are available on Bank's website [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) under Tenders section and respective website.

"Addendum", if any, shall be published on Bank's website [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) under Tenders section and respective website. Bidders must refer the same before final submission of the proposal.

**Place: Mumbai**  
**Date : 11.06.2025** **Chief Technology Officer**

Use only trusted websites and applications for online shopping and payment. Set up a unique & complex PIN or password for each application.

30/25-26

# Titan looks to double bag sales under IRTH, Fastrack brands

AKSHARA SRIVASTAVA  
New Delhi, 10 June

Titan's accessory division, which retails bags under brands like IRTH and Fastrack, is eyeing 100 per cent growth in the number of units sold in 2025-26 (FY26) over FY25.

"In FY25, we sold as many as 750,000 bags under the IRTH and Fastrack brands. Now, we are expecting an almost 100 per cent growth in FY26 on account of improving customer preferences, and rise in disposable incomes of women, among other factors. This would mean a doubling of units sold in the new financial year to almost 15 lakh bags," Manish Gupta, chief executive officer (CEO)-fragrance and accessories division at Titan, told *Business Standard*.

At the current rate, the brand has outlined plans to

“WE ARE ANTICIPATING AN ALMOST 100 % GROWTH IN FY26 ON ACCOUNT OF IMPROVING CUSTOMER PREFERENCES AND RISE IN THE DISPOSABLE INCOMES OF WOMEN...”

Manish Gupta  
CEO, fragrance & accessories division, Titan Company



clock a revenue of ₹500 crore from the accessories division by FY28.

In FY25, the handbags division crossed a three-figure revenue mark, Gupta added.

The product portfolio includes handbags, shoulder bags, wallets, keychains and charms, organisers, etc., along

with a new range of leather products.

"However, the aspiration is to clock revenues of ₹1,000 crore in the same time, which presents an opportunity to sell 4,000,000 bags. We plan to grow the market on the back of enhanced customer experience, and better store value

proposition," Gupta said, adding: "We are expecting ₹600 crore will come from IRTH while ₹400 crore will come from Fastrack."

Further, the IRTH brand is poised to expand its retail presence to 100 stores by FY27, targeting presence in malls and high streets.

Currently, almost 10-15 per cent of IRTH's sales came from the online channel.

"We have just launched an exclusive partnership with shopping platform Myntra last week, and expect that to accelerate the online sales share to 25 per cent," Gupta said.

Meanwhile, 70 per cent of sales for the Fastrack brand came from the online channel.

The Indian women's handbag market is valued at ₹6,000 crore, of which ₹2,600 crore is organised while a majority is unorganised.

# Vedanta Resources eyes investment grade rating

London-based Vedanta Resources Ltd (VRL) is targeting an investment grade credit rating on the back of its sustained deleveraging, the proposed demerger at its Indian subsidiary, Vedanta Ltd, and its robust growth, operational efficiencies and strong financial performance.

An investment-grade credit rating signifies a company's strong capacity to meet its

financial obligations and is considered a safe investment for institutional investors. It also allows a company to borrow money at lower interest rates, attracting a broader range of investors and gaining easier access to global debt markets. VRL is committed to reducing its total debt from the current USD 5 billion to USD 3 billion by FY27 while strengthening its critical min-

erals, transition metals, energy and technology portfolio.

A person aware of the matter said that VRL, at a recently held investor conferences in Hong Kong and Singapore, shared that the company is looking for an immediate credit rating upgrade to BB levels by proactively refinancing and prepaying its high-interest cost USD 550 million private credit facility due in

August 2026. In the medium term, the company plans to achieve an investment grade rating on the back of its improved debt profile, financial and operational performance. Vedanta highlighted its robust earnings, healthy free cash flows, ongoing growth projects, strengthened balance sheet, and future deleveraging plans to the investors, the source said.

PTI

# Pantomath asset management arm launches ₹2,000 cr real estate fund

The Wealth Company Asset Management — part of the Pantomath group — has launched the ₹2000 crore Bharat Bhoomi Fund under its fifth Bharat Value Fund series.

It will have a ₹1,000 crore category II alternative invest-

ment fund with a ₹1,000 crore green shoe option.

The fund will follow a diversified capital allocation strategy, investing in data centres, warehousing, hospitality, and renewable parks, sectors.

PRACHI PISAL

**SIS LIMITED**  
CIN - L75230BR1985PLC002083  
**Registered Office-** Annapoorna Bhawan, Telephone Exchange Road, Kurji, Patna- 800 010, Bihar, India  
**Tel.:** +91 612 226 6666 • **Fax:** +91 612 226 3948  
**Website:** [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com); **E-mail:** [shareholders@sisindia.com](mailto:shareholders@sisindia.com)  
**Contact Person:** Pushpalatha Katkuri, Company Secretary and Compliance Officer

**NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS – BUYBACK OF EQUITY SHARES**

SIS Limited ("the Company") has completed the dispatch of letter of offer dated June 09, 2025 along with Tender Forms and form SH-4 ("Letter of Offer") for Buyback to all the eligible shareholders ("Eligible Shareholders") holding Equity Shares as on the Record Date i.e. Friday, June 06, 2025, through electronic means to those Eligible Shareholders who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories, on Tuesday, June 10, 2025.

Further, if the Company receives a request from any Eligible Shareholders who has received Letter of Offer through electronic means or who have not registered their email IDs with the Company / Depositories, to obtain physical copy of the Letter of Offer, the Company shall dispatch a copy of the Letter of Offer in physical form by speed post / registered post / courier.

The Schedule of Buyback is as follows:

Activity	Day and Date
Buyback Opening Date	Thursday, June 12, 2025
Buyback Closing Date	Wednesday, June 18, 2025
*Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates (as applicable) by the Registrar	Wednesday, June 18, 2025

\*For terms and conditions of Buyback, detailed activity schedule and other details, please refer Letter of Offer.

The details of the entitlement Ratio is as follows:

Category of Eligible Shareholders	Ratio of Buyback (i.e. Buyback Entitlement)*
Reserved Category for Small Shareholders	117 Equity Shares for every 535 Equity Shares held on the Record Date
General Category for all other Eligible Shareholders	1 Equity Shares for every 45 Equity Shares held on the Record Date

\*The ratio of Buyback indicated above is approximate and provides an indication of the Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for reserved category for Small Shareholders is 0.2186917862 and general category for all other Eligible Shareholders is 0.0222355365. The exact Entitlement as per the holding as on Record Date shall be communicated electronically to the Eligible Shareholders along with the Letter of Offer. For further information on ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category, please refer paragraph 21.6 on page 51 of the Letter of Offer.

Eligible Shareholders can also check their entitlement on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps given below:

- 1) Click on <https://in.mpms.mufig.com/Offer/Default.aspx>
- 2) Select the name of the Company – SIS Limited BUYBACK 2025
- 3) Select holding type - "Demat" or "Physical" or "PAN"
- 4) Based on the option selected above, enter your "Folio Number" or "NSDL DPID/Client ID" or "CDSL Client ID" or "PAN"
- 5) Click on submit
- 6) Then click on 'View' button
- 7) The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'.

In case you have not received the Letter of Offer, the same is also available on the websites of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), Company at [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com), BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), NSE [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), the Manager to the Buyback at [www.damcapital.in](http://www.damcapital.in) and the Registrar to the Buyback at [www.in.mpms.mufig.com](http://www.in.mpms.mufig.com).

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the Letter of Offer.

**For SIS Limited**

Sd/-  
**Pushpalatha Katkuri**  
Company Secretary and Compliance Officer  
Membership No.: A21695

**Date :** June 10, 2025  
**Place :** Bangalore



# रेल शेयरों में आई है ज्यादा तेज उछाल

## जेन स्ट्रीट पर एक नजर

पुनीत वाधवा  
नई दिल्ली, 10 जून

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ताजा रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे से जुड़े शेयरों में अब तक जो बड़ी तेजी आई है, वह मिडकैप और स्मॉलकैप में आई चौतरफा तेजी की वजह से है। उसने इन शेयरों के बुनियादी तत्वों और कीमतों के बीच ‘बड़ा अंतर’ होने को लेकर भी आगाह किया है।

केआईई के प्रबंध निदेशक और सह-प्रमुख संजीव प्रसाद ने अनिंद्य भौमिक और सुनीता बलदवा के साथ तैयार एक रिपोर्ट में कहा है, ‘हमें रेलवे कंपनियों के बुनियादी आधार और उनके शेयर भावों के बीच बड़ा अंतर दिख रहा है। पीएसयू रेलवे शेयर बुक वैल्यू (नेटवर्थ) के कई गुना और बहुत अधिक पीई मल्टीपल पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनियों की वित्त और वृद्धि की संभावनाओं के साथ इन कीमतों को सही ठहराना बहुत मुश्किल है।’

दलाल पथ पर रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर वित्त वर्ष 2026 में करीब 47 फीसदी चढ़ा है। एसीई इक्विटी के आंकड़ों से पता चलता है कि

रेल शेयरों पर एक नजर				
(10 जून तक)	कीमत (रुपये में)	बदलाव एफवाईटीडी (%)	बीएफ12एम पीई गुना	संभावित तेजी (%)
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	449.10	48.44	-	39.9
इरकॉन इंटरनैशनल	215.74	37.87	27.89	-23.1
राइट्स	301.60	35.02	32.80	-2.4
टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग	176.78	31.24	19.73	19.4
रेल विकास निगम	426.70	21.27	59.20	-49.4
टीटागढ़ रेल सिस्टम	944.00	18.56	30.46	19.1
जुपिटर वेंगंस	409.60	10.85	35.26	5.2
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूर	788.90	8.44	40.19	5.3
निफ्टी स्मॉलकैप 250	17,544.30	16.16	26.32	6.0
निफ्टी मिडकैप 150	21,915.90	14.62	29.53	-6.0
निफ्टी सीपीएसई	6,632.30	8.02	12.99	9.4
निफ्टी 50 इंडेक्स	25,104.25	6.74	20.73	8.8

बीएफ12एम: 12 महीने का ब्लेंडेड फॉरवर्ड , एफवाईटीडी: वित्त वर्ष में अब तक  
स्रोत: ब्लूमबर्ग, आंकड़े: बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित

इरकॉन इंटरनैशनल, राइट्स, टेक्समैको रेल, रेल विकास निगम , टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और इंडियन रेलवे फाइनैस कॉरपोरेशन में 17 से 40 फीसदी तक की तेजी आई है। इसकी तुलना में निफ्टी-50 सूचकांक में 6.3 फीसदी की तेजी आई है जबकि निफ्टी सीपीएसई सूचकांक इस दौरान 6.7 फीसदी तक चढ़ा है। जियोजित

फाइनैशियल सर्विसेज में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरांग शाह का भी मानना है कि रेल शेयरों में तेजी काफी अ धिक है और तेजी से भी आई है। अल्पावधि में उन्होंने इस क्षेत्र में निवेशकों को मुनाफावसूली का सुझाव दिया है। शाह ने कहा, ‘यह क्षेत्र दीर्घावधिके लिहाज से आकर्षक दिख रहा है। परिदृश्य को इस लिहाज से भी देखना

### मिडकैप की आंधी

केआईई की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल शेयरों में तेजी का एक और कारण सभी क्षेत्रों में स्मॉल और मिडकैप ( एसएमआईडी ) शेयरों के लिए बढ़ता उत्साह है। केआईई के अनुसार सात रेल शेयरों – आईआरएफसी, रेलटेल, इरकॉन, राइट, जुपिटर वेंगंस, टीटागढ़ वेंगंस और आरवीएनएल का बाजार पूंजीकरण 5 जून तक 3.6 लाख करोड़ रुपये था जबकि बुक वैल्यू 78,400 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 9,900 करोड़ रुपये ( वित्त वर्ष 2025 में ) था।

### पूंजीगत खर्च योजनाएं

केआईई को रेलवे के पूंजीगत खर्च में ‘कोई खास तेजी’ नहीं दिख रही है जिससे संबंधित कंपनियों की आय बढ़ सके और स्टॉक एक्सचेंज में उनका ऊंचा प्रीमियम सही साबित हो सके। प्रसाद का मानना है कि भारतीय रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में रोलिंग स्टॉक और ट्रेक में बड़े निवेश के साथ अपने नेटवर्क की क्षमता को अच्छा-खासा बढ़ा लिया है। लेकिन हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क जैसी नई परियोजनाओं पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘रेलवे क्षेत्र का ज्यादातर पूंजीगत खर्च केंद्रीय सरकार के बजट से जुड़ा हुआ है।’

### ओसवाल पंप्स ने तय किया

आईपीओ का कीमत दायरा : ओसवाल पंप्स ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निगम का कीमत दायरा 584 से 614 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह आईपीओ 13 जून को खुलकर 17 जून को बंद होगा। 1,58,7 करोड़ रु. के इस आईपीओ में 890 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे और 497 करोड़ रुपये का ओएफएस होगा। बीएस

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated May 15, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with BSE Limited ("BSE") and The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") (collectively referred to as the "Stock Exchanges") and submitted to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination.



## PURPLE FINANCE LIMITED

Registered Office: Room No. 11, 1<sup>st</sup> Floor, Indu Chambers, 349/353, Samuel Street, Vadgadi, Masjid Bunder (West), Mumbai-400 003.  
Contact person: Ruchi Nishar, Company Secretary & Compliance Officer  
Telephone: 022-69165100; E-mail id: compliance@purplefinance.in; Website: www.purplefinance.in  
Corporate Identity Number: L67120MH1993PLC075037

### ADDENDUM TO THE LETTER OF OFFER DATED MAY 15, 2025

Our Company was incorporated as "Devipura Balaji Securities & Investments Private Limited" on November 09, 1993, a Private Limited Company under the Companies Act, 1956 and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Mumbai. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company and the name of our Company was changed to "Devipura Balaji Securities & Investments Limited" on July 20, 1998, vide an amended Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Devipura Balaji Securities & Investments Limited acquired K K Financial Services Private Limited on September 13, 2013. Pursuant to which the Company applied for name change to Registrar of Companies, Mumbai and received a Certificate of Registration approving change in name to "Purple Finance Limited" vide Certificate of Incorporation dated November 26, 2013. The Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide its Order dated February 15, 2024, has approved the Scheme of Merger by Absorption of Canopy Finance Limited by Purple Finance Limited and their respective Shareholders and Creditors. Pursuant to the aforementioned merger, the equity shares of the Company have been listed on BSE Limited w.e.f. June 14, 2024, and on The Calcutta Stock Exchange Limited w.e.f. June 18, 2024.

### OUR PROMOTERS: AMITABH CHATURVEDI, MINAL CHATURVEDI, ABHISHEK CHATURVEDI, ABHIDEV CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED AND SAGUNA MERCANTILE PRIVATE LIMITED

### THE ISSUE

**RIGHTS ISSUE OF UP TO 96,04,273 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹42 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹32 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UPTO ₹4033.79 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 [THREE] EQUITY SHARES FOR EVERY 14 [FOURTEEN] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY MAY 23, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 234 OF THIS LETTER OF OFFER.**

#### #Assuming full subscription

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchanges and SEBI and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform the Eligible Equity Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, June 02, 2025 and was scheduled to close on Tuesday, June 10, 2025, has now been extended from Tuesday, June 10, 2025 to Monday, June 16, 2025, by the Finance Committee in its Meeting held on Tuesday, June 10, 2025 in order to provide an opportunity to Shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, June 16, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, June 16, 2025.

#### REVISED ISSUE SCHEDULE

Issue Opening Date	Monday, June 02, 2025
Issue Closing Date	Monday, June 16, 2025.
Finalising the basis of allotment with the Designated Stock Exchange	Friday, June 20, 2025
Date of Allotment (on or about)	Saturday, June 21, 2025
Initiation of refunds	Thursday, June 26, 2025
Date of credit (on or about)	Tuesday, June 24, 2025
Date of listing (on or about)	Monday, June 23, 2025

\*Our Board/ Finance Committee may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

\*\*Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.

#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

This addendum shall be available on the respective websites of our Company at [www.purplefinance.in](http://www.purplefinance.in); the Registrar to the Issue at [www.purvashare.com](http://www.purvashare.com); and the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com).

Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated May 15, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closure. Wherever the date Tuesday, June 10, 2025 is mentioned in relation to the Issue Closing Date shall now be read as Monday, June 16, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM, CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For PURPLE FINANCE LIMITED  
On Behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Ruchi Nishar  
Company Secretary & Compliance officer

**Disclaimer:** Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated May 15, 2025 with the BSE Limited and The Calcutta Stock Exchange Limited and has submitted to Securities and Exchange Board of India for information and dissemination. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), CSE at [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com), Our Company at [www.purplefinance.in](http://www.purplefinance.in) and the Registrar to the Issue at [www.purvashare.com](http://www.purvashare.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

## एचडीएफसी बैंक के एडीआर का प्रीमियम बढ़ा

पिछले साल 5 फीसदी से नीचे फिसलने के बाद एचडीएफसी बैंक की अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) का प्रीमियम अपने स्थानीय शेयर के मुकाबले बढ़कर 10 फीसदी से ज्यादा हो गया है। इससे देश की सबसे मूल्यवान लेनदार में विदेशी निवेशकों की फिर से शुरू हुई दिलचस्पी का संकेत मिलता है।

लेकिन स्थानीय शेयर 12 फीसदी सस्ता होने के बावजूद विदेशी निवेशक एडीआर का विकल्प क्यों चुन रहे हैं? इसका जवाब अमेरिका और भारत के बीच कर असमानताओं में छिपा है।

मैक्नेरी के हालिया नोट में बताया गया है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( एफपीआई ) के लिए स्थानीय शेयरों की तुलना में लिक्विड एडीआर खरीदना कर के लिहाज से ज्यादा मुफीद है। 2024 के बजट में भारत सरकार ने दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ करों में वृद्धि की है, जिसमें आगे और

वृद्धि की संभावना है। एडीआर में गैर-अमेरिकी निवेशक अमेरिका में पूंजीगत लाभ कर से बच सकते हैं जबकि स्थानीय शेयर खरीदने पर भारत में 20 फीसदी अल्पकालिक और 12.5 फीसदी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगता है। इससे एडीआर प्रीमियम उचित हो जाता है।

2021 की शुरुआत में एचडीएफसी बैंक का एडीआर प्रीमियम 30 फीसदी से ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह आंशिक रूप से घरेलू बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( एफपीआई ) के लिए निवेश की सीमित गुंजाइश होना थी। लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के विलय और 2023 में रिकॉर्ड एफपीआई निकासी ने विदेशी निवेशकों के लिए पर्याप्त गुंजाइश बना दी। हाल में आए उछाल से पहले 2024 की शुरुआत तक एडीआर स्थानीय शेयरों के मुकाबले छूट पर कारोबार कर रहे थे।

समी मोडक

## पीई फर्म ने बेचा प्रीमियर एनर्जीज का हिस्सा

साउथ एशिया ग्रोथ फंड ने मंगलवार को प्रीमियर एनर्जीज की 5.5 फीसदी हिस्सेदारी 2,629 करोड़ रुपये में बेच दी। खरीदारों में क्वांट म्यूचुअल फंड, एस्बीआई लाइफ इंश्योरेंस, सोसियाते जेनराली, एडलवाइस म्यूचुअल फंड और ऐक्सिस म्यूचुअल फंड शामिल हैं। ये शेयर 1,051.6 रुपये के भाव पर बेचे गए। प्रीमियर एनर्जीज का शेयर 1,084 रुपये पर बंद हुआ।

12 को खुलेगा मोनोलिथिस इंडिया का आईपीओ : मोनोलिथिस इंडिया का 82.02 करोड़ रुपये का आईपीओ 12 जून को खुलकर 16 जून को बंद होगा। यह शेयर एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध होगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर का कीमत दायरा 135 रुपये से 143 रुपये किया गया है। बीएस

<div><div><div><div><div><span></span></div><div><b>SIS</b></div></div><div><div><span></span></div><div><b>Group Enterprises</b></div></div></div><div><div>A Market Leader in</div><div>Security, Cash Logistics</div><div>&amp; Facility Management</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><b>SIS LIMITED</b></div></div><div><div>CIN - L75230BR1985PLC002083</div></div></div><div><div><div>Registered Office- Annapoorna Bhawan, Telephone Exchange Road, Kurji, Patna- 800 010, Bihar, India</div><div>Tel.: +91 612 226 6666 • Fax: +91 612 226 3948</div><div>Website: <a href="http://www.sisindia.com">www.sisindia.com</a>; E-mail: <a href="mailto:shareholders@sisindia.com">shareholders@sisindia.com</a></div><div>Contact Person: Pushpalatha Katkuri, Company Secretary and Compliance Officer</div></div></div></div></div>	
<b>NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS – BUYBACK OF EQUITY SHARES</b>	
SIS Limited (“ <b>the Company</b> ”) has completed the dispatch of letter of offer dated June 09, 2025 along with Tender Forms and form SH-4 (“ <b>Letter of Offer</b> ”) for Buyback to all the eligible shareholders (“ <b>Eligible Shareholders</b> ”) holding Equity Shares as on the Record Date i.e. Friday, June 06, 2025, through electronic means to those Eligible Shareholders who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories, on Tuesday, June 10, 2025.	
Further, if the Company receives a request from any Eligible Shareholders who has received Letter of Offer through electronic means or who have not registered their email IDs with the Company / Depositories, to obtain physical copy of the Letter of Offer, the Company shall dispatch a copy of the Letter of Offer in physical form by speed post / registered post / courier.	
The Schedule of Buyback is as follows:	
<b>Activity</b>	<b>Day and Date</b>
Buyback Opening Date	Thursday, June 12, 2025
Buyback Closing Date	Wednesday, June 18, 2025
*Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates (as applicable) by the Registrar	Wednesday, June 18, 2025
<i>*For terms and conditions of Buyback, detailed activity schedule and other details, please refer Letter of Offer.</i>	
The details of the entitlement Ratio is as follows:	
<b>Category of Eligible Shareholders</b>	<b>Ratio of Buyback (i.e. Buyback Entitlement)*</b>
Reserved Category for Small Shareholders	117 Equity Shares for every 535 Equity Shares held on the Record Date
General Category for all other Eligible Shareholders	1 Equity Shares for every 45 Equity Shares held on the Record Date
<i>*The ratio of Buyback indicated above is approximate and provides an indication of the Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for reserved category for Small Shareholders is 0.2186917862 and general category for all other Eligible Shareholders is 0.0222355365. The exact Entitlement as per the holding as on Record Date shall be communicated electronically to the Eligible Shareholders along with the Letter of Offer. For further information on ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category, please refer paragraph 21.6 on page 51 of the Letter of Offer.</i>	
<b>Eligible Shareholders can also check their entitlement on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps given below:</b>	
<b>1) Click on <a href="https://in.mpms.muftg.com/Offer/Default.aspx">https://in.mpms.muftg.com/Offer/Default.aspx</a></b>	
<b>2) Select the name of the Company – SIS Limited BUYBACK 2025</b>	
<b>3) Select holding type - “Demat” or “Physical” or “PAN”</b>	
<b>4) Based on the option selected above, enter your “Folio Number” or “NSDL DPID/Client ID” or “CDSL Client ID” or “PAN”</b>	
<b>5) Click on submit</b>	
<b>6) Then click on ‘View’ button</b>	
<b>7) The entitlement will be provided in the pre-filled ‘FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT’.</b>	
In case you have not received the Letter of Offer, the same is also available on the websites of SEBI at <a href="http://www.sebi.gov.in">www.sebi.gov.in</a> , Company at <a href="http://www.sisindia.com">www.sisindia.com</a> , BSE at <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> , NSE <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> , the Manager to the Buyback at <a href="http://www.damcapital.in">www.damcapital.in</a> and the Registrar to the Buyback at <a href="http://www.in.mpms.muftg.com">www.in.mpms.muftg.com</a> .	
Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the Letter of Offer.	
<b>For SIS Limited</b>	
Sd/-	
<b>Pushpalatha Katkuri</b>	
Company Secretary and Compliance Officer	
Membership No.: A21695	
<b>Date</b> : June 10, 2025	
<b>Place</b> : Bangalore	



